

प्रेषक,  
देवेन्द्र कुमार  
अपर सिविल जज (सी०डि०),  
कक्ष संख्या- 14, प्रतापगढ़

सेवा में,  
श्रीमान महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,  
इलाहाबाद।  
द्वारा: जनपद न्यायाधीश,  
जनपद प्रतापगढ़।

**विषय:** स्थानान्तरण के संबंध प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी उ०प्र० न्यायिक सेवा का वर्ष 2016 बैच का अधिकारी है। मैंने वार्षिक स्थानान्तरण 2024 के क्रम में, माननीय उच्च न्यायालय के **Notification No. 964/Admin (Services) 2024 Dated: 13 April 2024** के अनुपालन में जजशिप बिजनौर से जजशिप प्रतापगढ़ स्थानान्तरण होने पर अपर सिविल जज (सी०डि०) के पद पर कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

अत्यन्त आदर पूर्वक अवगत कराना है कि-

मेरे माताजी एवं पिताजी दोनों का स्वर्गवास हो गया है। मेरी दो बड़ी बहनों का भी स्वर्गवास हो गया है, जिनकी दो पुत्रियां एवं एक पुत्र विवाह योग्य हैं, और प्रार्थी पारिवारिक जिम्मेदारियों के अधीन है। जिस कारण मुझे बार-बार मेरठ जाना पड़ता है।

मेरे सास-ससुर अति वृद्ध हैं एवं उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनका उपचार मेरठ एवं अन्य अस्पतालों में चल रहा है। उनका एक पुत्र लकवाग्रस्त है एवं विकलांग है। जिस कारण वे अपना उपचार कराने में असमर्थ हैं एवं अति वृद्ध होने के कारण हम पर आश्रित हैं। प्रार्थी की पत्नी मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहती है जिनका उपचार दिल्ली एवं अन्य स्थानों पर चल रहा है। पत्नी एवं सास-ससुर की बीमारी के कारण मुझे समय-समय पर मेरठ जाना पड़ता है। मैं उनको साथ इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ कि प्रतापगढ़ में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। मेरठ में स्वास्थ्य सेवाएँ यहाँ से बेहतर हैं एवं वहाँ पर अच्छे हास्पिटल उपलब्ध हैं एवं दिल्ली भी इलाज की दृष्टि से नजदीक है जहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।

मेरा वर्तमान नियुक्ति का स्थान प्रतापगढ़ मेरे गृह जनपद मेरठ से 650 किमी. दूर है। प्रतापगढ़ से मेरठ के लिये बस अथवा रेलमार्ग की पर्याप्त कनेक्टिविटी न होने के कारण बार-बार मेरठ जाना सम्भव नहीं हो पाता है, जिस कारण मैं अपने पारिवारिक दायित्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे माताजी एवं पिताजी का स्वर्गवास हो गया है एवं मैं अकेला ही परिवार को देखने वाला हूँ। ऐसी स्थिति में पत्नी के स्वास्थ्य एवं सास-ससुर की वृद्धावस्था एवं अन्य पारिवारिक दायित्यों के देखते हुए समय-समय पर मेरा उनके साथ होना आवश्यक है जिससे वह मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सबल हो सके।


अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि यदि मेरा स्थानान्तरण मेरठ जौन में हापुड, बुलन्दशहर, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर अथवा अलीगढ़, मथुरा में कर दिया जाता है तो मैं अपने पारिवारिक दायित्यों का निर्वहन सुचारु रूप से कर सकूंगा एवं साथ ही समय-समय पर पत्नी, सास, सुसुर का इलाज भी करा सकूंगा और पूर्ण मनोयोग से न्यायिक कार्य सम्पादित कर सकूंगा।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उक्त प्रत्यावेदन को सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

मैं माननीय महोदय का सदैव आभारी रहूँगा।

आदर सहित।

भवदीय

  
(देवेन्द्र कुमार)

अपर सिविल जज (सी०डि०),  
कक्ष संख्या- 14, प्रतापगढ़

ID- UP2605

दिनांक-01.05.2024

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार